

69वीं अन्तर जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारम्भ ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन्स परिसर में 69वीं अन्तर जनपदीय गोरखपुर जोन एथलेटिक्स खेल-कूद प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया । इस प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन के कुल 09 जनपद (गोण्डा, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बहराईच, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर व सिद्धार्थनगर) ने भाग लिया ।

प्रतियोगिता का शुभारम्भ सर्वप्रथम 26वीं वाहिनी पी0ए0सी0 गोरखपुर द्वारा बैंड बाजे के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही सभी जनपद की टीमों द्वारा मार्च-पास्ट कर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर मुख्य अतिथि को सलामी दी गयी । महोदय द्वारा प्रतियोगिता में भाग ले रहे समस्त प्रतिभागी खिलाड़ियों को खेल के नियमों के बारे में जानकारी देकर शपथ दिलाया गया और महोदय द्वारा समस्त प्रतिभागी खिलाड़ियों की हौसला-आफजाई की गयी । तदोपरान्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खेल प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया । पुलिस लाइन्स में प्रतियोगिता का शुभारम्भ करने से पूर्व मुख्य आरक्षी श्री प्रदुमन सिंह द्वारा मशाल के साथ ग्राउण्ड का चक्कर लगाया गया । आज 14 स्पर्धाओं (लम्बी कूद, 100 मी0, 200मी0, 400 मी0, 05कि0मी0 दौड़, गोला फेंक लम्बी कूद, ऊँची कूद महिला व पुरुष वर्ग) का आयोजन किया गया जिसके परिणाम निम्नवत् है ।

- 200 मीटर दौड़ फाइनल पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान आरक्षी कृष्ण मोहन साहनी जनपद सिद्धार्थनगर, द्वितीय स्थान पर आरक्षी सत्यप्रकाश जनपद महाराजगंज व तृतीय स्थान पर आरक्षी अखिलेश यादव जनपद बस्ती ।
- 200 मीटर दौड़ फाइनल महिला वर्ग में प्रथम स्थान महिला आरक्षी प्रिया सिंह जनपद गोरखपुर, द्वितीय स्थान पर महिला आरक्षी रानी यादव जनपद बस्ती व तृतीय स्थान पर महिला आरक्षी स्वाति त्रिपाठी ।
- 800 मीटर दौड़ फाइनल पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान आरक्षी विजय यादव जनपद बस्ती, द्वितीय स्थान पर आरक्षी तेज बहादुर यादव जनपद सिद्धार्थनगर व तृतीय स्थान पर इन्द्रजीत जनपद बस्ती ।
- 800 मीटर दौड़ फाइनल महिला वर्ग में प्रथम स्थान महिला आरक्षी रितु मिश्रा जनपद गोरखपुर, द्वितीय स्थान पर महिला आरक्षी संगीता यादव जनपद सिद्धार्थनगर व तृतीय स्थान पर महिला आरक्षी वर्षा शर्मा, जनपद देवरिया ।
- 05 कि0मी0 फाइनल महिला वर्ग में प्रथम स्थान महिला आरक्षी नंदनी राणा जनपद सिद्धार्थनगर, द्वितीय स्थान पर महिला आरक्षी नीलू यादव जनपद गोरखपुर व तृतीय स्थान पर रीना कुमारी जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05 कि0मी0 फाइनल पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान आरक्षी सुशील प्रसाद जनपद सिद्धार्थनगर व द्वितीय स्थान पर आरक्षी अमित पासवान जनपद देवरिया व तृतीय स्थान पर चंदन सिंह जनपद सिद्धार्थनगर ।
- लम्बी कूद पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान आरक्षी अंकित सिंह जनपद गोरखपुर, द्वितीय स्थान पर आरक्षी अजय यादव जनपद सिद्धार्थनगर व तृतीय स्थान सत्यपाल जनपद महाराजगंज ।
- लम्बी कूद महिला वर्ग में प्रथम स्थान महिला आरक्षी प्रियंका शुक्ला जनपद देवरिया, द्वितीय स्थान महिला आरक्षी अंकिता मल्ल जनपद बस्ती व तृतीय साधना पाण्डेय जनपद गोरखपुर ।
- महिला वर्ग ऊँची कूद में प्रथम स्थान महिला आरक्षी बबिता जनपद सिद्धार्थनगर, द्वितीय स्थान महिला आरक्षी मान्या द्विवेदी जनपद सिद्धार्थनगर व तृतीय स्थान पर साधना सिंह जनपद गोरखपुर ।
- गोला फेंक पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान आरक्षी कृष्ण कुमार जनपद गोरखपुर, द्वितीय स्थान पर आरक्षी अजित यादव जनपद गोण्डा व तृतीय स्थान पर आरक्षी राजेन्द्र मोदनवाल जनपद गोण्डा ।

इस 03 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन दिनांक 03-03-2021 को सायं काल 04:00 बजे किया जायेगा ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 01-03-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.03.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ0नि0 श्री महेन्द्र चौहान मय टीम द्वारा 01 अभियुक्त को मड़वा रेलवे क्रासिंग के पास से 20 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 037/21 धारा 60/63 आब.अधि. पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विष्णु पुत्र मकखन कहार निवासी वार्ड नं. 5 कस्बा व थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण-

20 शीशी अवैध नेपाली शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01-उ0नि0 महेन्द्र चौहान थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

02-का0 सत्येन्द्र यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

03-का0 शरद यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 01-03-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.03.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ0नि0 श्री रविकान्त मणि त्रिपाठी मय टीम द्वारा एसटी नं0- 4/13 मु0अ0सं0- 901/12 धारा 302 भादवि0 से सम्बन्धित वारण्टी को उसके घर कस्बा शोहरतगढ़ से समय करीब 6.00 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

इजहार हुसैन पुत्र अब्दुल कादिर निवासी वार्ड नं. 8 थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01- उ0नि0 रविकान्त मणि त्रिपाठी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

02- उ0नि0 महेन्द्र चौहान थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

03- का0 सत्येन्द्र यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 01-03-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्नाटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 01-03-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 280 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 82 वाहनों का चालान कर ₹ 73500/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

05

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 01-03-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार 1 नफर वारंटी अभियुक्त

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री अजय श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व प्रभारी उ0निरीक्षक इटवा मनोज सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.03.2021 को तलाश बांछित/वारंटी अभियान में 1 नफर अभियुक्त वसूली वारंट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

१- वारंटी अब्दुल्लाह पुत्र अब्दुल बकर निवासी ग्राम पिपरा पठान थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर,
गिरफ्तार करने वाली टीम-

१-. उ०नि०- पप्पू कुमार थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

२-आरक्षी आशुतोष धर दुबे थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।